

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

11.
3110

सं० 235] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, अक्टूबर 11, 1973/आश्विन 19, 1895

(0. 235] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 1973/ASVINA 19, 1895

इस भाग में जिस पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th October 1973

SUBJECT.—*Licensing conditions for import under the West German D.M. 35 million*

No. 32-ETC(PN)/73.—Reference Public Notice No. 9-ETC(PN)/73, dated 26th March, 1973 and 21-ETC(PN)/73, dated the 20th June, 1973, on the above subject.

2. It has been decided that exports of cotton handloom made-ups, including readymade garments, to U.S.A. shall be licensed freely, against a quota, during the quarter October—December, 1973, on shipping bills accompanied by firm contracts and inspection certificates, etc. Exports will approach the licensing authorities concerned direct with the necessary documents.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1973

विषय: सूती हुतावरी उत्पादों (वस्त्रों में मिला) का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात ।

संख्या : 32—ई.टी.सी. (पो एन) /73—संदर्भ-उपयुक्त विषयक सार्वजनिक सूचना संख्या 9—ई.टी.सी. (पो एन) /73, दिनांक 26-3-73 और 21—ई.टी.सी. (पो एन) /73, दिनांक 20 जून, 1973 ।

2. यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित सूची सूती हुतावरी उत्पादों के संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यातों को अनुमति, कोटे के आधार पर, अक्तूबर-दिसम्बर, 1973 तिमाही के दौरान निम्नलिखित मात्राओं और निरोधक प्रमाणपत्रों आदि सहित पोतपरिवहन बिजों पर स्वतंत्र रूप से दो जाएंगे । निर्यातक ओम्निटा रमावेजों के साथ सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों से सीधे सम्पर्क करेंगे ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।